



# सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

## असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग-4, खण्ड (ख)

(परिनियत आदेश)

लखनऊ, बृहस्पतिवार, 18 अप्रैल, 2024

चैत्र 29, 1946 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

औद्योगिक विकास अनुभाग-3

संख्या 258/77-3-2024-139(एम)-2018

लखनऊ, 18 अप्रैल, 2024

अधिसूचना

प0आ0-96

चूँकि प्रारम्भिक अधिसूचना संख्या 1511/77-3-2023-139(एम)-2018, दिनांक 17 अक्टूबर, 2023, लोक प्रयोजन, अर्थात्, उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के माध्यम से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु अपेक्षित तहसील निजामाबाद, जिला आजमगढ़ स्थित ग्राम पूरबपट्टी में 1.0027 हेक्टेयर, कुल 1.0027 हेक्टेयर भूमि के सम्बन्ध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (अधिनियम संख्या 30 सन् 2013) की धारा 11 की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गयी थी और अतः दिनांक 26 नवम्बर, 2023 को प्रकाशित की गयी थी। उप कलेक्टर / सहायक कलेक्टर, तहसील निजामाबाद, जिला आजमगढ़ को परियोजना से प्रभावित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के प्रयोजनार्थ प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया था;

अतएव, अब, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 15 की उप-धारा (2) के अधीन उपबन्धों के अनुसरण में प्रस्तुत की गयी कलेक्टर की रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् राज्यपाल पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (1) के अधीन घोषणा करते हैं कि उनका यह समाधान हो गया है कि नीचे अनुसूची "क" में उल्लिखित भूमि का क्षेत्रफल लोक प्रयोजन के लिए आवश्यक है और अनुसूची "ख" में यथा प्रदत्त ग्राम-शून्य, परगना-शून्य और जिला-शून्य में शून्य हेक्टेयर भूमि विस्थापित परिवारों के पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के लिये चिन्हांकित की गयी है (इस परियोजना हेतु भूमि अर्जन के कारण कोई परिवार विस्थापित होना संभाव्य नहीं है)।

राज्यपाल अग्रत्तर पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 19 की उप-धारा (2) के अधीन आजमगढ़ के कलेक्टर को इस आशय की घोषणा प्रकाशित करने के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना को संक्षिप्त रूप में प्रकाशित करने के लिए निदेश देते हैं। पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश इसके साथ संलग्न है। (पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हेतु भूमि अर्जन में कोई परिवार विस्थापित नहीं हुआ है। अतएव, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन हेतु कोई भूमि चिन्हित किये जाने और पुनर्वासन तथा पुनर्व्यवस्थापन योजना का सारांश प्रकाशित किये जाने की आवश्यकता नहीं है।)

### अनुसूची-क

#### (प्रस्तावित अर्जनाधीन-भूमि)

क्र०सं०	जिला	तहसील	परगना	ग्राम	भूखण्ड संख्या	अर्जित किया जाने वाला क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6	7
1	आजमगढ़	निजामाबाद	निजामाबाद	पूरबपट्टी	156, 150	0.9068
					158	0.0120
					142	0.0070
					149	0.0619
					145	0.0150
					<b>योग</b>	<b>1.0027</b>

### अनुसूची-ख

#### (विस्थापित परिवारों के लिए व्यवस्थापन क्षेत्र के रूप में चिन्हित भूमि)

जिला	तहसील	परगना	ग्राम	भूखण्ड संख्या	पुनर्वासन हेतु चिन्हित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1	2	3	4	5	6
शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(इस परियोजना हेतु भूमि अर्जन के कारण, कोई परिवार, विस्थापित होना संभाव्य नहीं है।)					

**टिप्पणी**—उक्त भूमि का स्थल नक्शा, कलेक्टर, आजमगढ़ के कार्यालय में देखा जा सकता है।

आज्ञा से,  
अभिषेक प्रकाश,  
सचिव।

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 258/LXXVII-3-2024-139(M)-2018 dated: April 18, 2024:

No. 258/LXXVII-3-2024-139(M)-2018

*Dated Lucknow, April 18, 2024*

WHEREAS preliminary Notification no. 1511/LXXVII-3-2023-139(M)-2018, dated October 17, 2023 was issued under sub-section (1) of section 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 (Act no. 30 of 2013) in respect of total 1.0027 hectares of land required in village Purabpatti 1.0027 hectares, Tehsil Nizamabad. District-Azamgarh required for public purpose, namely Purvanchal Expressway Project through Uttar Pradesh Expressways Industrial Development Authority (UPEIDA) and was lastly published on dated November 26, 2023. Deputy Collector/Assistant Collector, Tehsil Nizamabad, District Azamgarh was appointed as Administrator for the purpose of rehabilitation and resettlement of the project affected families;

NOW, THEREFORE, after considering the report of the Collector submitted in pursuance of the provision under sub-section (2) of the section 15 of the aforesaid Act, the Governor is pleased to declare under sub-section (1) of section 19 of the aforesaid Act that she is satisfied that the area of the land mentioned in Schedule-A below is needed for public purpose and land to the extent of nil Hectare in the Village-nil, Pargana-nil and District-nil as given in the Schedule-B has been identified for rehabilitation and resettlement of the displaced families (No family is likely to be displaced due to land acquisition for this project).

The Governor is further pleased under sub-section (2) of section 19 of the aforesaid Act, to direct the Collector of Azamgarh to publish summary of the Rehabilitation and Resettlement Scheme with publication of the declaration to this effect. The summary of the Rehabilitation and Resettlement Scheme is attached herewith. (No family is displaced in land acquisition for Purvanchal Expressway. Hence there is no need for identification of any land for rehabilitation and resettlement and publication of summary of Rehabilitation and Resettlement Scheme).

**SCHEDULE—A**  
**(Land Under Proposed Acquisition)**

Sl. no.	District	Tehsil	Pargana	Village	Plot no.	Area to be acquired (In Hect.)
1	2	3	4	5	6	7
1	Azamgarh	Nizamabad	Nizamabad	Purabpatti	156, 150	0.9068
					158	0.0120
					142	0.0070
					149	0.0619
					145	0.0150
					<b>Total</b>	<b>1.0027</b>

## SCHEDULE-B

(Land Identified as Settlement Area for Displaced Families)

District	Tehsil	Pargana	Village	Plot No.	Area Earmarked for Rehabilitation (In hect.)
1	2	3	4	5	6
Nil	Nil	Nil	Nil	Nil	Nil
(No family is likely to be displaced due to land acquisition for this project)					

Note: A site plan of the land may be inspected in the office of the Collector, Azamgarh.

By order,  
ABHISHEK PRAKASH,  
*Sachiv.*